



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 भाद्र 1945 (श0)

(सं0 पटना 733) पटना, सोमवार, 11 सितम्बर 2023

#### विधि विभाग

##### अधिसूचना

11 सितम्बर 2023

एस0ओ0. 237, दिनांक 11 सितम्बर 2023—नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-7ए के उप नियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार एतद् द्वारा अधिसूचना सं0-एस0ओ0-3723 दिनांक-09.06.2016 को अधिक्रान्त करते हुए राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में नोटरियों की नियुक्ति के निमित्त एक साक्षात्कार बोर्ड का गठन करती है, जिसके निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे :-

- |       |  |           |
|-------|--|-----------|
| (i)   | सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना।            | - अध्यक्ष |
| (ii)  | विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना   | - सदस्य   |
| (iii) | संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना | - सदस्य   |

2. विशेष परिस्थिति में, उपरोक्त क्रमांक-ii अथवा क्रमांक-iii की अनुपस्थिति में, कार्यकारी व्यवस्था के तहत, विभाग में पदस्थापित वरीयतम अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना अथवा विधिक मामले से संबंधित अन्य विभागीय पदाधिकारी, जो उपलब्ध हो, साक्षात्कार बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

3. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

[सं० ए0/नोट-45/91 (पार्ट-IV)-7373/जे0]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रमेश चन्द मालवीय,  
सचिव-सह-विधि परामर्शी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण)733-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>